

Rev

Chapter 14

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 **Καὶ** εἶδον, καὶ ἰδοὺ, τὸ Ἄρνιον ἔστος ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ
और मैंने-देखा और देखो, -वह मेम्ना खड़ा-हुआ -पर -उस पहाड़ सीयोन और
[G2532](#) [G3708](#) [G2532](#) [G3708](#) [G3588](#) [G0721](#) [G2476](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3735](#) [G4622](#) [G2532](#)
- μετ’** αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα
-के-साथ उसके एक-सौ चालीस चार हज़ार रखती-थीं -वह नाम
[G3326](#) [G0846](#) [G1540](#) [G5062](#) [G5064](#) [G5505](#) [G2192](#) [G3588](#) [G3686](#)
- αὐτοῦ,** καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων
उसका और -वह नाम -का पिता उसके लिखा-हुआ -पर -उनके माथों
[G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3686](#) [G3588](#) [G3962](#) [G0846](#) [G1125](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3359](#)
- αὐτῶν.**
उनके।
[G0846](#)

फिर मैंने देखा कि मेरे सामने सिंघोन पर्वत पर मेमना खड़ा है। उसके साथ ही एक लाख चवालीस हज़ार वे लोग भी खड़े थे जिनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम अंकित था।

- 2 **καὶ** ἤκουσα φωνήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνήν ὑδάτων πολλῶν, καὶ
और मैंने-सुनी आवाज -से -के स्वर्ग जैसी आवाज पानियों बहुतों और
[G2532](#) [G0191](#) [G5456](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3772](#) [G5613](#) [G5456](#) [G5204](#) [G4183](#) [G2532](#)
- ὡς** φωνήν βροντῆς μεγάλης. καὶ ἡ φωνή ἦν ἤκουσα, ὡς καθαρωδῶν
जैसी आवाज गरज बड़ी। और -वह आवाज जो मैंने-सुनी जैसी वीणावादकों
[G5613](#) [G5456](#) [G1027](#) [G3173](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5456](#) [G3739](#) [G0191](#) [G5613](#) [G2790](#)
- κιθαριζόντων** ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.
बजाते-हुए -पर -अपनी वीणाओं उनकी।
[G2789](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2788](#) [G0846](#)

फिर मैंने एक आकाशवाणी सुनी, उसका महा नाद एक विशाल जल प्रपात के समान था या घनघोर मेघ गर्जन के जैसा था। जो महानाद मैंने सुना था, वह अनेक वीणा वादकों द्वारा एक साथ बजायी गई वीणाओं से उत्पन्न संगीत के समान था।

- 3 **καὶ** ᾄδουσιν <ὡς> ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν
और वे-गाते-हैं जैसे गीत नया सामने -के सिंहासन और सामने -उन
[G2532](#) [G0103](#) [G5613](#) [G5603](#) [G2537](#) [G1799](#) [G3588](#) [G2362](#) [G2532](#) [G1799](#) [G3588](#)
- τεσσαράων** ζώων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων. καὶ οὐδείς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν
चारों प्राणियों और -उन प्राचीनों। और कोई-नहीं समर्थ-था सीखने -को
[G5064](#) [G2226](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4245](#) [G2532](#) [G3762](#) [G1410](#) [G3129](#) [G3588](#)
- ᾠδὴν,** εἰ μὴ αἰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι
गीत सिवाय केवल -वे एक-सौ चालीस चार हज़ार -जो मोल-लिए-गए-थे
[G5603](#) [G1487](#) [G3361](#) [G3588](#) [G1540](#) [G5062](#) [G5064](#) [G5505](#) [G3588](#) [G0059](#)
- ἀπο** τῆς γῆς.
-से -की पृथ्वी।
[G0575](#) [G3588](#) [G1093](#)

वे लोग सिंहासन, चारों प्राणियों तथा प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। जिन एक लाख चवालीस हज़ार लोगों को धरती पर फिरौती देकर बन्धन से छुड़ा लिया गया था उन्हें छोड़ अन्य कोई भी व्यक्ति उस गीत को नहीं सीख सकता था।

4 οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν; παρθένοι γὰρ εἰσιν.
 ये हैं जो -के-साथ स्त्रियों नहीं अशुद्ध-हुए कुंवारे क्योंकि हैं।
[G3778](#) [G1510](#) [G3739](#) [G3326](#) [G1135](#) [G3756](#) [G3435](#) [G3933](#) [G1063](#) [G1510](#)

οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ Ἄρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν
 ये -जो पीछे-चलनेवाले-हैं -के मेम्ने जहां भी वह-जाए। ये मोल-लिए-गए
[G3778](#) [G3588](#) [G0190](#) [G3588](#) [G0721](#) [G3699](#) [G0302](#) [G5217](#) [G3778](#) [G0059](#)

ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ, καὶ τῷ Ἄρνίῳ:
 -से -उन मनुष्यों पहला-फल -के-लिए परमेश्वर और -के-लिए मेम्ने
[G0575](#) [G3588](#) [G0444](#) [G0536](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0721](#)

वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी स्त्री के संसर्ग से अपने आपको दूषित नहीं किया था। क्योंकि वे कुंवारे थे जहाँ कहीं मेमना जाता, वे उसका अनुसरण करते। सारी मानव जाति से उन्हें फिरौती देकर बन्धन से छुड़ा लिया गया था। वे परमेश्वर और मेमने के लिए फसल के पहले फल थे।

5 καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὐρέθη ψεῦδος; ἄμωμοὶ εἰσιν ἕνῳπιον
 और -में -उनके मुंह उनके नहीं पाया-गया झूठ निर्दोष हैं सामने
[G2532](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4750](#) [G0846](#) [G3756](#) [G2147](#) [G5579](#) [G0299](#) [G1510](#) [G1799](#)

τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ.
 -के सिंहासन -के परमेश्वर।
[G3588](#) [G2362](#) [G3588](#) [G2316](#)

उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, वे निर्दोष थे।

6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον
 और मैंने-देखा दूसरे स्वर्गदूत उड़ते-हुए -में आकाश-के-बीच रखता-हुआ सुसमाचार
[G2532](#) [G3708](#) [G0243](#) [G0032](#) [G4072](#) [G1722](#) [G3321](#) [G2192](#) [G2098](#)

αἰώνιον εὐαγγελίαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ πάντων
 अनंत सुनाने-को -पर -उन बैठनेवालों -पर -की पृथ्वी और -पर हर
[G0166](#) [G2097](#) [G1909](#) [G3588](#) [G2521](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2532](#) [G1909](#) [G3956](#)

ἔθνος, καὶ φυλὴν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν;
 जाति और गोत्र और भाषा और लोग।
[G1484](#) [G2532](#) [G5443](#) [G2532](#) [G1100](#) [G2532](#) [G2992](#)

फिर मैंने आकाश में ऊँची उड़ान भरते एक और स्वर्गदूत को देखा। उसके पास धरती के निवासियों, प्रत्येक देश, जाति, भाषा और कुल के लोगों के लिए सुसमाचार का एक अनन्त सन्देश था।

7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν Θεόν, καὶ δότε αὐτῷ δόξαν,
 कहता-हुआ -में स्वर-से बड़े डरो -से परमेश्वर और दो उसे महिमा
[G3004](#) [G1722](#) [G5456](#) [G3173](#) [G5399](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G1325](#) [G0846](#) [G1391](#)

ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ; καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι
 क्योंकि आ-गई -वह घड़ी -की न्याय उसकी और दंडवत-करो -उसे बनानेवाले
[G3754](#) [G2064](#) [G3588](#) [G5610](#) [G3588](#) [G2920](#) [G0846](#) [G2532](#) [G4352](#) [G3588](#) [G4160](#)

τὸν οὐρανὸν, καὶ τὴν γῆν, καὶ θάλασσαν, καὶ πηγὰς ὑδάτων.
 -को स्वर्ग और -को पृथ्वी और समुद्र और सोतों पानियों-की।
[G3588](#) [G3772](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2532](#) [G2281](#) [G2532](#) [G4077](#) [G5204](#)

ऊँचे स्वर में वह बोला, “परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो। क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो, जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल-स्रोतों की रचना की है।”

8 Καὶ ἄλλος, ἄγγελος □ δεύτερος ἠκολούθησεν, λέγων, ᾠπεσεν, ἔπασεν Βαβυλῶν
 और दूसरा स्वर्गदूत दूसरा पीछे-आया कहता-हुआ गिर-गई गिर-गई बाबुल
[G2532](#) [G0243](#) [G0032](#) [G1208](#) [G0190](#) [G3004](#) [G4098](#) [G4098](#) [G0897](#)

ἡ μεγάλη; ἡ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς,
 -वह बड़ी जिसने -से -उस दाखरस -उसके क्रोध -की व्यभिचार उसकी
[G3588](#) [G3173](#) [G3739](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3631](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G4202](#) [G0846](#)

πεπότηκεν πάντα τὰ ἔθνη.
 पिलाया-है सब -उन जातियों-को।
[G4222](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1484](#)

इसके पश्चात् उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया और बोला, "उसका पतन हो चुका है, महान नगरी बाबुल का पतन हो चुका है। उसने सभी जातियों को अपने व्यभिचार से उत्पन्न क्रोध की वासनामय मदिरा पिलायी थी।"

9 Καὶ ἄλλος, ἄγγελος, τρίτος, ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν φωνῇ μεγάλη, [G3173](#)
 और दूसरा स्वर्गदूत तीसरा पीछे-आया उनके कहता-हुआ -में स्वर-से बड़े
[G2532](#) [G0243](#) [G0032](#) [G5154](#) [G0190](#) [G0846](#) [G3004](#) [G1722](#) [G5456](#) [G3173](#)

Εἰ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει
 यदि कोई दंडवत-करता-है -उस पशु और -उसकी मूर्ति उसकी और लेता-है
[G1487](#) [G5100](#) [G4352](#) [G3588](#) [G2342](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1504](#) [G0846](#) [G2532](#) [G2983](#)

χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
 चिह्न -पर -अपने माथे उसके या -पर -अपने हाथ उसके
[G5480](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3359](#) [G0846](#) [G2228](#) [G1909](#) [G3588](#) [G5495](#) [G0846](#)

उन दोनों के पश्चात् फिर एक और स्वर्गदूत आया और ऊँचे स्वर में बोला, "यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है और अपने हाथ या माथे पर उसका छाप धारण करता है,

10 καὶ αὐτὸς πᾶσαι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ
 और वह-भी पीएगा -से -उस दाखरस -उसके क्रोध -के परमेश्वर -जो
[G2532](#) [G0846](#) [G4095](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3631](#) [G3588](#) [G2372](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#)

κεκρασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ; καὶ
 मिलाई-गई-है अमिश्रित -में -उसके कटोरे -की जलजलाहट उसकी और
[G2767](#) [G0194](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4221](#) [G3588](#) [G3709](#) [G0846](#) [G2532](#)

βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων, καὶ ἐνώπιον
 यातना-दी-जाएगी -में आग और गंधक सामने स्वर्गदूतों पवित्र और सामने
[G0928](#) [G1722](#) [G4442](#) [G2532](#) [G2303](#) [G1799](#) [G0032](#) [G0040](#) [G2532](#) [G1799](#)

τοῦ Ἄρνιου.
 -के मेम्ने।
[G3588](#) [G0721](#)

तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पीएगा। ऐसी अमिश्रित तीखी मदिरा जो परमेश्वरके प्रकोप के कटोरे में तैयार की गयी है। उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने से सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएँ दी जायेंगी।

- 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασιανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει;
 और -वह धुआँ -की यातना उनकी -के-लिए युगों युगों-के उठती-है
[G2532](#) [G3588](#) [G2586](#) [G3588](#) [G0929](#) [G0846](#) [G1519](#) [G0165](#) [G0165](#) [G0305](#)
- καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν, ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ
 और नहीं रखते-हैं विश्राम दिन और रात -जो दंडवत-करनेवाले -उस
[G2532](#) [G3756](#) [G2192](#) [G0372](#) [G2250](#) [G2532](#) [G3571](#) [G3588](#) [G4352](#) [G3588](#)
- θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἶ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ
 पशु और -उसकी मूर्ति उसकी और यदि कोई लेता-है -वह चिह्न -के
[G2342](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1504](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1487](#) [G5100](#) [G2983](#) [G3588](#) [G5480](#) [G3588](#)
- ὀνόματος αὐτοῦ.
 नाम उसके।
[G3686](#) [G0846](#)

युग-युगान्तर तक उनकी यातनाओं से धूआँ उठता रहेगा। और जिस किसी पर भी पशु के नाम की छाप अंकित होगी और जो उसकी और उसकी मूर्ति की उपासना करता होगा, उन्हें रात-दिन कभी चैन नहीं मिलेगा।”

- 12 Ἦδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολάς τοῦ
 यहां -वह धैर्य -का पवित्र-लोगों है -जो पालन-करनेवाले-हैं -की आज्ञाओं -की
[G5602](#) [G3588](#) [G5281](#) [G3588](#) [G0040](#) [G1510](#) [G3588](#) [G5083](#) [G3588](#) [G1785](#) [G3588](#)
- Θεοῦ, καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ.
 परमेश्वर और -को विश्वास यीशु-का।
[G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4102](#) [G2424](#)

इसी स्थान पर परमेश्वर के उन संत जनों की धैर्यपूर्ण सहनशीलता की अपेक्षा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु में अपने विश्वास का पालन करती है।

- 13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης Γράψον, Μακάριοι οἱ
 और मैंने-सुनी आवाज -से -के स्वर्ग कहती-हुई लिख धन्य -वे
[G2532](#) [G0191](#) [G5456](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3004](#) [G1125](#) [G3107](#) [G3588](#)
- νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα,
 मृत -जो -में प्रभु मरनेवाले -से अब। हां कहती-है -वह आत्मा
[G3498](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2962](#) [G0599](#) [G0575](#) [G0737](#) [G3483](#) [G3004](#) [G3588](#) [G4151](#)
- ἵνα ἀναπαύσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν; τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ
 ताकि वे-विश्राम-पाएं -से -अपने परिश्रमों उनके -वे क्योंकि काम उनके पीछे-चलते-हैं
[G2443](#) [G0373](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2873](#) [G0846](#) [G3588](#) [G1063](#) [G2041](#) [G0846](#) [G0190](#)
- μετ’ αὐτῶν.
 -के-साथ उनके।
[G3326](#) [G0846](#)

फिर एक आकाशवाणी को मैंने यह कहते सुना, “इसे लिख अब से आगे वे ही लोग धन्य होंगे जो प्रभु में स्थित हो कर मरे हैं।” आत्मा कहती है, “हाँ, यही ठीक है। उन्हें अपने परिश्रम से अब विश्राम मिलेगा क्योंकि उनके कर्म, उनके साथ हैं।”

- 14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον
 और मैंने-देखा और देखो बादल सफेद और -पर -उस बादल बैठा-हुआ
[G2532](#) [G3708](#) [G2532](#) [G3708](#) [G3507](#) [G3022](#) [G2532](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3507](#) [G2521](#)
- ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν,
 सदृश पुत्र मनुष्य-का रखता-था -पर -उसके सिर उसके मुकुट सोने-का
[G3664](#) [G5207](#) [G0444](#) [G2192](#) [G1909](#) [G3588](#) [G2776](#) [G0846](#) [G4735](#) [G5552](#)
- καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὄξύ.
 और -में -उसके हाथ उसके हंसिया तीखी।
[G2532](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5495](#) [G0846](#) [G1407](#) [G3691](#)

फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वहाँ एक सफेद बादल था। और उस बादल पर एक व्यक्ति बैठा था जो मनुष्य के पुत्र जैसा दिख रहा था। उसने सिर पर एक स्वर्णमुकुट धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक तेज हंसिया था।

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 | Kaì | ἄλλος | ἄγγελος | ἐξῆλθεν | ἐκ | τοῦ | ναοῦ, | κράζων | ἐν | φωνῇ | μεγάλη |
| | और | दूसरा | स्वर्गदूत | निकला | -से | -के | मंदिर | चिल्लाता-हुआ | -में | स्वर-से | बड़े |
| | G2532 | G0243 | G0032 | G1831 | G1537 | G3588 | G3485 | G2896 | G1722 | G5456 | G3173 |
| | τῷ | καθημένῳ | ἐπὶ | τῆς | νεφέλης, | Πέμψον | τὸ | δρέπανόν | σου | καὶ | θέρισον; |
| | -से | बैठे-हुए | -पर | -उस | बादल | भेज | -वह | हंसिया | तेरा | और | काट |
| | G3588 | G2521 | G1909 | G3588 | G3507 | G3992 | G3588 | G1407 | G4771 | G2532 | G2325 |
| | ὅτι | ἦλθεν | ἡ | ὥρα | θερίσαι, | ὅτι | ἐξηράνθη | ὁ | θερισμὸς | τῆς | γῆς. |
| | क्योंकि | आ-गई | -वह | घड़ी | काटने-की | क्योंकि | सूख-गई | -वह | फसल | -की | पृथ्वी। |
| | G3754 | G2064 | G3588 | G5610 | G2325 | G3754 | G3583 | G3588 | G2326 | G3588 | G1093 |

| तभी मन्दिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसने जो बादल पर बैठा था, उससे ऊँचे स्वर में कहा, “हंसिया चला और फसल इकट्ठी कर क्योंकि फसल काटने का समय आ पहुँचा है। धरती की फसल पक चुकी है।”

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | καὶ | ἔβαλεν | ὁ | καθήμενος | ἐπὶ | τῆς | νεφέλης, | τὸ | δρέπανον | αὐτοῦ | ἐπὶ |
| | और | चलाया | -उसने | बैठे-हुए | -पर | -उस | बादल | -वह | हंसिया | उसका | -पर |
| | G2532 | G0906 | G3588 | G2521 | G1909 | G3588 | G3507 | G3588 | G1407 | G0846 | G1909 |
| | τὴν | γῆν, | καὶ | ἐθερίσθη | ἡ | γῆ. | | | | | |
| | -को | पृथ्वी | और | काटी-गई | -वह | पृथ्वी। | | | | | |
| | G3588 | G1093 | G2532 | G2325 | G3588 | G1093 | | | | | |

| सो जो बादल पर बैठा था, उसने धरती पर अपना हंसिया चलाया तथा धरती की फसल काट ली गयी।

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 17 | Kaì | ἄλλος | ἄγγελος | ἐξῆλθεν | ἐκ | τοῦ | ναοῦ | τοῦ | ἐν | τῷ | οὐρανῷ, | ἔχων |
| | और | दूसरा | स्वर्गदूत | निकला | -से | -के | मंदिर | -जो | -में | -उसके | स्वर्ग | रखता-था |
| | G2532 | G0243 | G0032 | G1831 | G1537 | G3588 | G3485 | G3588 | G1722 | G3588 | G3772 | G2192 |
| | καὶ | αὐτὸς | δρέπανον | ὄξυ. | | | | | | | | |
| | और | वह-भी | हंसिया | तीखी। | | | | | | | | |
| | G2532 | G0846 | G1407 | G3691 | | | | | | | | |

| फिर आकाश में स्थित मन्दिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसके पास भी एक तेज हंसिया था।

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18 | Kaì | ἄλλος | ἄγγελος | ἐξῆλθεν | ἐκ | τοῦ | θουσιαστηρίου, | ὁ | ἔχων | ἐξουσίαν | | |
| | और | दूसरा | स्वर्गदूत | निकला | -से | -की | वेदी | -वह | रखनेवाला | अधिकार | | |
| | G2532 | G0243 | G0032 | G1831 | G1537 | G3588 | G2379 | G3588 | G2192 | G1849 | | |
| | ἐπὶ | τοῦ | παυρός, | καὶ | ἐφώνησεν | φωνῇ | μεγάλη | τῷ | ἔχοντι | τὸ | δρέπανον | |
| | -पर | -उस | आग | और | पुकारा | स्वर-से | बड़े | -से | रखनेवाले | -वह | हंसिया | |
| | G1909 | G3588 | G4442 | G2532 | G5455 | G5456 | G3173 | G3588 | G2192 | G3588 | G1407 | |
| | τὸ | ὄξυ, | λέγων, | Πέμψον | σου | τὸ | δρέπανον | τὸ | ὄξυ, | καὶ | τρύγησον | τοὺς |
| | -वह | तीखी | कहता-हुआ | भेज | तेरी | -वह | हंसिया | -वह | तीखी | और | तोड़ | -उन |
| | G3588 | G3691 | G3004 | G3992 | G4771 | G3588 | G1407 | G3588 | G3691 | G2532 | G5166 | G3588 |
| | βότρυας | τῆς | ἀμπέλου | τῆς | γῆς; | ὅτι | ἦκμασαν | αἱ | σταφυλαὶ | αὐτῆς. | | |
| | गुच्छों-को | -की | दाखलता | -की | पृथ्वी | क्योंकि | पक-गए-हैं | -वे | अंगूर | उसके। | | |
| | G1009 | G3588 | G0288 | G3588 | G1093 | G3754 | G0187 | G3588 | G4718 | G0846 | | |

| तभी वेदी से एक और स्वर्गदूत आया। अग्नि पर उसका अधिकार था। उस स्वर्गदूत से ऊँचे स्वर में कहा, “अपने तेज हंसिये का प्रयोग कर और धरती की बेल से अंगूर के गुच्छे उतार ले क्योंकि इसके अंगूर पक चुके हैं।”

19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ
 और चलाया -उसने स्वर्गदूत -वह हंसिया उसका -पर -को पृथ्वी और
[G2532](#) [G0906](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1407](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2532](#)

ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ
 उसने-तोड़ा -को दाखलता -की पृथ्वी और डाला -में -के कुंड -के क्रोध
[G5166](#) [G3588](#) [G0288](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2532](#) [G0906](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3025](#) [G3588](#) [G2372](#)

τοῦ Θεοῦ τὸν μέγαν;
 -के परमेश्वर -को बड़े।
[G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G3173](#)

| सो उस स्वर्गदूत ने धरती पर अपना हंसिया चलाया और धरती के अंगूर उतार लिए और उन्हें परमेश्वर के भयंकर कोप की कुण्ड में डाल दिया।

20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς
 और रौंदी-गई -वह कुंड बाहर -की नगर और निकला खून -से -उस
[G2532](#) [G3961](#) [G3588](#) [G3025](#) [G1855](#) [G3588](#) [G4172](#) [G2532](#) [G1831](#) [G0129](#) [G1537](#) [G3588](#)

ληνοῦ, ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.
 कुंड -तक -उन लगामों -के घोड़ों -से स्टेडिया हज़ार छह-सौ।
[G3025](#) [G0891](#) [G3588](#) [G5469](#) [G3588](#) [G2462](#) [G0575](#) [G4712](#) [G5507](#) [G1812](#)

| अंगूर नगर के बाहर की धानी में रौंद कर निचोड़ लिए गए। धानी में से लहू बह निकला। लहू घोड़े की लगाम जितना ऊपर चढ़ आया और कोई तीन सौ किलो मीटर की दूरी तक फैल गया।